

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2868]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 2868]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3758(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1288 (अ), तारीख 21 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 1139, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवरूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45सी के 100/000 कि.मी. से 165/000 कि.मी. (विक्रावन्दी-कुम्बाकोनम-तंजावुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13 अगस्त, 2013 को “दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस” और “थिना थॉथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 सी के कि.मी. 100.000 कि.मी. 165.00 (विक्रावान्दी -कुम्बाकोनम- तंजावुर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुवरूर	वलांगाईमान	मदाग्राम	18/1	निजी	नम	4165	राजेन्द्रन पुत्र कल्याणसुन्दरम
				18/2	निजी	शुष्क	1090	बालासुब्रमणियन पुत्र गोविन्दाराज नायाक्कार
				18/5ए	निजी	शुष्क	130	थानीकासलाम पुत्र गोविन्दाराज नायाक्कार
				18/5बी1	निजी	शुष्क	42	गणपति पुत्र नटराज नायाक्कार
				18/5बी2	निजी	शुष्क	15	मनीकावासागम नायाक्कार पुत्र चिन्नीया नायाक्कार
				21/1ए1	निजी	नम	870	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				21/1ए2	निजी	नम	1130	गनानाप्रकाशम पुत्र पोन्नुसामी सेरवाई
				21/1बी1	निजी	नम	735	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				21/1बी2	निजी	नम	550	ब्बाक्कीयाम सेरवाई पुत्र कान्नुसामी सेरवाई
				21/1बी3	निजी	नम	440	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				21/2	निजी	नम	1450	1. एपीएस पाउलराज पुत्र अरोक्कियासामी सेरवाई 2. ए थोमस पुत्र अरोक्कीयासामी सेरवाई
				22/1	निजी	नम	102	अरुलानान्दाम पुत्र सेबस्टीन
				22/2ए	निजी	नम	750	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				22/2बी	निजी	नम	250	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				22/2सी 1	निजी	नम	650	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				22/2सी2	निजी	नम	800	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				22/3	निजी	नम	520	रामालिंगम नायाक्कार पुत्र मरीयाप्पा नायाक्कार
				22/4ए	निजी	शुष्क	1450	कृष्णासामी पुत्र पाक्कीरीसामी
				22/4बी	निजी	शुष्क	1695	गोविन्दाराज पुत्र थुलासीयाप्पा नायाक्कार
				25/1	निजी	शुष्क	110	1.थिरुगनानाम पुत्र नटराजन 2. गणपति पुत्र नटराजन
				25/2	निजी	नम	2225	1.थिरुगनानाम पुत्र नटराजन 2. गणपति पुत्र नटराजन
				27/1ए	निजी	नम	125	कल्याणसुन्दरम नायाक्कार पुत्र पाक्कीरिसामी नायाक्कार
				32/2	निजी	शुष्क	70	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				32/3	निजी	शुष्क	1810	सेनगुट्टुवान पुत्र सुन्नामुर्धि
				32/4	निजी	शुष्क	950	1. गबेरीयाल 2. ईरुथीयासामी पुत्र मनीयान 3. पाललीयासेरवाई पुत्र कुलान्दीया सेरवाई 4. गणप्रकाशम पुत्र पोन्नुसामी 5. जोन एन्थोनी
				32/5	निजी	शुष्क	2075	विन्सेट पुत्र देवागयाम
				32/6	निजी	शुष्क	30	1. ए थोमस सेरवाई पुत्र अरोक्कीयासामी सेरवाई 2. मही मर्किट रोसेलीन्द पत्नी ए बी जेवियर 3. जोसफ राज सेरवाई पुत्र अरोक्कीयासामी सेरवाई 4. एपीएस पाउल राज सेरवाई पुत्र अरोक्कीयासामी सेरवाई 5. फिलिप अमालराज सेरवाई पुत्र अरोक्कीयासामी सेरवाई 6. कल्याणसुन्दरम पुत्र पाक्कीसामी 7. कृष्णासामी नायाक्कोर पुत्र पाक्कीरीसामी

							8. सुन्दरामुर्ध्नि पुत्र पाक्कीरीसामी
			34/1	निजी	शुष्क	1010	सेनगुट्टुवान पुत्र सुन्नामुर्ध्नि
			34/3	निजी	शुष्क	1705	अरुलनाथन पुत्र सेबेस्टीन
			34/4	निजी	शुष्क	1830	कृष्णासामी पुत्र पाक्कीरीसामी
			34/5	निजी	शुष्क	1215	1. सुन्नामुर्ध्नि पुत्र पाक्कीरीसामी
							2. देराईप्पा पुत्र नटराज
			34/6	निजी	शुष्क	535	सेनगुट्टुवान पुत्र सुन्नामुर्ध्नि
			34/7	निजी	शुष्क	485	अरुलन्नान्दाम पुत्र सबस्टेन
			35/1	निजी	शुष्क	4997	विन्सेट पुत्र देवागयाम
			35/3	निजी	शुष्क	945	आनन्थान पुत्र वैकाटाचलम
			35/4बी	निजी	शुष्क	575	उमा रानी पत्नी आनन्दाम
			35/4सी	निजी	शुष्क	575	सेलवारज पुत्र रामासामी मुदलियार
			35/5बी	निजी	शुष्क	2950	1. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारीयार
							2. राजागोपालन पुत्र टी एस राधवाचारीयार
							3. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारीयार
			38/2ए	निजी	शुष्क	550	1. राजागोपालन पुत्र टी एस राधवाचारीयार
							2. इन्द्राणी पत्नी सुन्नामुर्ध्नि
							3. जेनबागालक्ष्मी पत्नी टी आर सदागोपान
							4. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
							5. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारी
			38/2बी	निजी	शुष्क	400	1. राजागोपालन पुत्र टी एस राधवाचारीयार
							2. ईरुथीयासामी पुत्र मनीयान
							3. जेनबागालक्ष्मी पत्नी टी आर सदागोपान
							4. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
							5. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारी
			38/3ए	निजी	शुष्क	160	कुप्पुसामी नायाक्कार
			38/3बी	निजी	शुष्क	65	कुप्पुसामी नायाक्कार
			38/4ए	निजी	शुष्क	3	शिवरामारथिनाम पुत्र अन्नासामी नायाक्कार
			40/1	निजी	शुष्क	380	1. सदागोपान पुत्र रंगासामी
							2. ईरुथीयासामी पुत्र मनीयान
							3. आरवामुधान पुत्र रंगासामी
							4. शिवरामारथिनाम पुत्र अन्नासामी नायाक्कार
							5. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
							6. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारी
							7. राजागोपाल पुत्र टी एस राधवाचारी
			40/4	निजी	शुष्क	60	1. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारी
							2. राजागोपालन पुत्र टी एस राधवाचारीयार
							3. कालीयामुर्ध्नि पुत्र करुप्पाया
							4. सदागोपान पुत्र रंगासामी
							5. आरवामुधान पुत्र रंगासामी
							6. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
			40/5	निजी	शुष्क	345	1. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
							2. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारी
							3. राजगोपाल पुत्र टी एस राधवाचारी
							4. कालीयामुर्ध्नि पुत्र करुप्पाया पदायाची
							5. आरवामुधान पुत्र रंगासामी ईयानगार
			40/6	निजी	शुष्क	610	कालीयामुर्ध्नि पुत्र करुप्पाया पदायाची
			40/7	निजी	शुष्क	300	1. कालीयामुर्ध्नि पुत्र करुप्पाया पदायाची
							2. सोमु
			40/8	निजी	शुष्क	550	2. कालीयामुर्ध्नि
							2. रथिनाम पुत्र वीरासामी चेट्टीयार
							3. चित्रावेल
							4. शंकर

			40/9	निजी	शुष्क	700	सुन्द्राम पुत्र पिचाईकान्नु
			40/10	निजी	शुष्क	695	1. कृष्णासामी
							2. शिवरामारथिनाम पुत्र अनासामी
							3. अलागाम्माल
							4. वाल्लीप्पा चेट्टीयार
							5. मादानागुरु नायाक्कार
			40/11	निजी	शुष्क	394	1. शंकरनाथन
							2. जेनबागालक्ष्मी पत्नी सदागोपान
							3. राजागोपाल पुत्र टी एस राधवचारीयार
							4. अननासामी
			40/12	निजी	शुष्क	55	शिवरामा रथिनाम पुत्र अनास्वामी नायाक्कार
			133/1ए	निजी	नम	2677	अम्मासी (अलीस) काथीजाबीवी अम्माल पत्नी हाईसा नाईदीन
			133/1बी	निजी	नम	1970	1. अरुमुगम पुत्र थंगावेल
							2. हाजाशरीफ पुत्र अबदुल मुथालीफ
			133/1सी	निजी	नम	2745	एम एन मोहम्मद रबीक पुत्र नुरमोहम्मद
			133/2	निजी	नम	2690	वीराप्पान पुत्र मारुथामुथु
			133/3	निजी	शुष्क	12	1. रामरथीना नायाक्कार
							2. दक्षिणामुथि नायागार
							3. मोहम्मद युसुफ
			134/7ए	निजी	नम	400	रथिनाम चेट्टीयार पुत्र रामासामी चेट्टीयार
			134/7बी	निजी	नम	790	1. शंकर पुत्र वीरासामी पुत्र वीरासामी
							2. कालीयामुथि पुत्र वीरासामी
			136	निजी	शुष्क	260	1. राजामनी अम्माल
							2. कान्नुसवामी
							3. एम एन सामीनाथा नायाक्कार
							4. सुन्द्रामुथि
							5. वेन्कादाचलाम
			140/1ई	निजी	नम	1455	1. अरुमुगम पुत्र थंगावेल
							2. हाजा शरीफ पुत्र अबदुल मुथालीफ
			141/1ए	निजी	नम	835	कल्लयाणी पुत्री राजाप्पा
			141/1बी	निजी	नम	350	मरीमुथु पुत्र मुथुसामी
			141/2	निजी	नम	485	श्रीनिवासन पुत्र गोविन्दन
			141/3ए	निजी	नम	1450	1. अरुमुगम पुत्र थंगावेल
							2. हाजा शरीफ पुत्र अबदुल मुथालीफ
			141/3बी	निजी	नम	1040	रोक्कीया बीवीयम्माल
			141/4ए	निजी	शुष्क	1773	1. राजाप्पा
							2. कथीरवेल पुत्र दुराईसामी
			141/4बी	निजी	शुष्क	1334	श्रीनिवासन पुत्र गोविन्दन
			141/4सी	निजी	शुष्क	940	1. मुरुगाईयान पुत्र सामीनाथान
							2. आनान्थाई पुत्र पेचीमुथु
			141/4डी	निजी	शुष्क	848	नाल्लाम्माल पत्नी कामतची
			141/4ई	निजी	शुष्क	930	नवान सामबान पुत्र मोक्कान समबान
			145/3	निजी	नम	450	थानगाईयान पुत्र पिचाईकान्नु
			151/1	निजी	नम	1480	1. राजाप्पा
							2. काथीरवेल पुत्र दुराईसामी
			151/2ए	निजी	नम	770	1. अरुमुगम पुत्र थंगावेल
							2. हाजा शरीफ पुत्र अबदुल मुथालीफ
			151/2बी	निजी	नम	3	एम ए बशीर अहमद पुत्र अबदुल वाहब
			152/1ए	निजी	नम	1335	थानगाईयान पुत्र पिचाईकान्नु
			152/1बी	निजी	नम	1385	1. मुरालीथाराम पुत्र टी आर आरावामुधान
							2. लक्ष्मी पुत्री टी आर अरावामुधान

								3. कान्नान पुत्र टी आर आरावामुधान
				152/1सी	निजी	नम	1360	1. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारीयर
								2. राजागोपालन पुत्र टी एस राधवाचारीयर
								3. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारीयर
				152/2	निजी	नम	4350	जुलाईका बावी अम्माल पत्नी अबदुलकरीम रोवथार
				153/1ए	निजी	नम	1705	सेलवारज पुत्र रामासामी मुदलियार
				153/1बी	निजी	नम	2700	श्रीनिवासन पुत्र गोविन्दन
				153/1सी	निजी	नम	3180	चेल्लाथाम्माल पुत्र गोविन्दन
				154/6ए	निजी	नम	130	सेलवारज पुत्र रामासामी मुदलियार
				154/6बी1	निजी	नम	405	सेलवारज पुत्र रामासामी मुदलियार
				154/6बी2	निजी	नम	775	श्रीनिवासन पुत्र गोविन्दन
				168/बी2	निजी	शुष्क	2300	1. रंगाचारी पुत्र टी एस राधवाचारीयर
								2. आन्दाल अलयस वाधावाल्ली पत्नी टी एस राधवाचारीयर
								3. राजागोपाल पुत्र टी एस राधवाचारीयर
								4. टी आर सदागोपान पुत्र रंगास्वामी ईयेर
								5. सारनाथन पुत्र टी एस राधवाचारी
				169/1	निजी	नम	2750	अबीमुकथीस्वरार स्वामी कोविल
				170/1	निजी	नम	85	सदीक हुसैन
				312/1	निजी	नम	2430	अबीमुकथीस्वरार स्वामी कोविल
				312/2	निजी	नम	2765	गोविन्दन पुत्र मोक्कान
				313/1	निजी	नम	3005	1. श्रीनिवासन पुत्र गोविन्दन
								2. गोविन्दन पुत्र मोक्कान
				313/2	निजी	नम	1425	अबीमुकथीस्वरार स्वामी कोविल
				1-2	सरकारी पोरमबोक	चिन्ना पोईगाईयारु	3600	तमिलनाडु सरकार
				25/3	सरकारी पोरमबोक	वाईक्काल	680	तमिलनाडु सरकार
				30	सरकारी पोरमबोक	कालपाथाई	1050	तमिलनाडु सरकार
				35/2	सरकारी पोरमबोक	वान्दी रास्ता	150	तमिलनाडु सरकार
				38/1	सरकारी पोरमबोक	पोईगाईयारु	2530	तमिलनाडु सरकार
				40/13	सरकारी पोरमबोक	वाईक्काल	215	तमिलनाडु सरकार
				141/5	सरकारी पोरमबोक	वाईक्काल	570	तमिलनाडु सरकार
				145/4	सरकारी पोरमबोक	वाईक्काल	550	तमिलनाडु सरकार
				153/2	सरकारी पोरमबोक	एटरोराम	150	तमिलनाडु सरकार
				168/बी1	सरकारी पोरमबोक	पोईगाईयारु	5675	तमिलनाडु सरकार
				168/सी	सरकारी पोरमबोक	पोईगाईयारु	1505	तमिलनाडु सरकार
				314	सरकारी पोरमबोक	पंचायत युनियन रास्ता	1075	तमिलनाडु सरकार

[फा.स.भाराराप्रा-एचक्यू /11013/01/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-तंजावुर]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2013

S.O. 3758(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1288(E), dated the 21st May, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary No.1139, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 45C on the stretch of land from km. 100/000 to km. 165/000 (Vikravandi-Kumbakonam-Thanjavur Section) in Tiruvarur District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The New Indian Express” and “Thina Thanthi” both dated the 13th August, 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within stretch of land from km 100/00 to km 165/000 (Vikravandi - Kumbakonam - Thanjavur Section) on the National Highway No. 45C in the State of Tamil Nadu.								
Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in square metres	Name of the land owner / Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tiruvarur	Valangaiman	Madhagaram	18/1	Private	Wet	4165	Rajendaran S/o. Kalayanasundaram
				18/2	Private	Dry	1090	Balasubramanian S/o. Govindaraj Nayakkar
				18/5A	Private	Dry	130	Thanikasalam S/o Govindaraj Nayakkar
				18/5B1	Private	Dry	42	Ganapathi S/o. Nataraja Nayakkar
				18/5B2	Private	Dry	15	Manickavasagam Nayakkar S/o Chinniyya Nayakkar
				21/1A1	Private	Wet	870	Vincent S/o. Devasgayam

				21/1A2	Private	Wet	1130	Gnanaprakasam S/o. Ponnusamy Servai
				21/1B1	Private	Wet	735	Vincent S/o. Devasgayam
				21/1B2	Private	Wet	550	Backkiyam Servai S/o Kannusamy Servai
				21/1B3	Private	Wet	440	Vincent S/o. Devasgayam
				21/2	Private	Wet	1450	1. APS Paulraj S/o. Arokkiyasamy Servai
								2. A. Thomas S/o Arokkiyasamy Servai
				22/1	Private	Wet	102	Arulanandam S/o. Sebastian
				22/2A	Private	Wet	750	Vincent S/o. Devasgayam
				22/2B	Private	Wet	250	Vincent S/o. Devasgayam
				22/2C 1	Private	Wet	650	Vincent S/o. Devasgayam
				22/2C2	Private	Wet	800	Vincent S/o. Devasgayam
				22/3	Private	Wet	520	Ramalinga Nayakkar S/o Mariyappa Nayakkar
				22/4A	Private	Dry	1450	Krishnasamy S/o. Pakkirisamy
				22/4B	Private	Dry	1695	Govindaraj S/o. Thulasiyappa Nayakkar
				25/1	Private	Dry	110	1. Thirugnanam S/o. Natarajan
								2. Ganapathi S/o. Natarajan
				25/2	Private	Wet	2225	1. Thirugnanam S/o.Natarajan
								2. Ganapathi S/o. Natarajan
				27/1A	Private	Wet	125	Kalayansundara Nayakkar S/o Packkirisamy Nayakkar
				32/2	Private	Dry	70	Vincent S/o. Devasgayam
				32/3	Private	Dry	1810	Senguttuvan S/o Sundaramoorthi
				32/4	Private	Dry	950	1. Gaberiyel

								2. Iruthiyasamy S/o. Maniyan
								3. Pallaiyaservai S/o Kulandhiya Servai
								4. Gnaprakasam S/o. Ponnusamy
								5. John Anthony
				32/5	Private	Dry	2075	Vincent S/o. Devasgayam
				32/6	Private	Dry	30	1. A.Thomas Servai S/o. Arokkiyasamy Servai
								2. Mahi Markret Roselind W/o. A.B. Xavior
								3. Joseph Raj Servai S/o. Arokkiyasamy Servai
								4. APS Paul Raj Servai S/o. Arokkiasamy Servai
								5. Philip Amalraj Servai S/o Arokkiasamy Servai
								6. Kalyanasundaram S/o. Packkirisamy
								7. Krishnasamy Nayakkar S/o Packkirisamy
								8. Sundharamoorthy S/o Packkirisamy
				34/1	Private	Dry	1010	Senguttuvan S/o. Sundaramoorthi
				34/3	Private	Dry	1705	Arulanantham S/o. Sabestian
				34/4	Private	Dry	1830	Krishnasamy S/o. Packkirisamy
				34/5	Private	Dry	1215	1. Sundaramoorthi S/o. Packkirisamy
								2. Duraiyappa S/o Nataraj
				34/6	Private	Dry	535	Senguttuvan S/o. Sundaramoorthi
				34/7	Private	Dry	485	Arulanandam S/o Sabestian
				35/1	Private	Dry	4997	Vincent S/o. Devasgayam
				35/3	Private	Dry	945	Aananthan S/o.Venkatachalam

				35/4B	Private	Dry	575	Uma Rani W/o. Aanantham
				35/4C	Private	Dry	575	Selvaraj S/o.Ramasamy Mudaliyar
				35/5B	Private	Dry	2950	1. Rengachari S/o. T.S.Ragavachariar
								2. Rajagopalan S/o. T.S Ragavachariar
								3. Saranathan S/o T.S.Ragavachariar
				38/2A	Private	Dry	550	1. Rajagopal S/o.T.S.Ragavachariar
								2. Indhirani W/o Sundaramoorthi
								3. Jenbagalakshmi W/o.T.R. Sadagopan
								4. Saranathan S/o. T.S. Ragavachari
								5. Rengachari S/o. T.S. Ragavachari
				38/2B	Private	Dry	400	1. Rajagopal S/o.T.S. Ragavachariar
								2. Indhirani W/o Sundaramoorthi
								3. Jenbagalakshmi W/o. T.R. Sadagopan
								4. Saranathan S/o T.S. Ragavachari
								5. Rengachari S/o T.S. Ragavachari
				38/3A	Private	Dry	160	Kuppusamy Nayakkar
				38/3B	Private	Dry	65	Kuppusamy Nayakkar
				38/4A	Private	Dry	3	Sivaramarathinam S/o. Annaswamy Nayakkar
				40/1	Private	Dry	380	1. Sadagopan S/o. Rengasami
								2. Indhirani W/o. Sundaramoorthi
								3. Aaravamudhan S/o. Rengasami
								4. Sivaramarathinam S/o. Annaswami Nayakkar
								5. Saranathan S/o. T.S. Ragavachari

[illegible]

								4. Valliappa Chettiyar
								5. Madanaguru Nayakkar
				40/11	Private	Dry	394	1. Saranathan
								2. Jenbagalakshmi W/o. Sadagopan
								3. Rajagopal S/o. T.S Ragavachariar
								4. Annasami
				40/12	Private	Dry	55	Sivarama Rathinam S/o Annaswami Nayakkar
				133/1A	Private	Wet	2677	Ammasi (alias) Kathijabeevee Ammal W/o. Hayeesa Noideen
				133/1B	Private	Wet	1970	1. Arumugham S/o. Thangavel
								2)Hajasheriff S/o. Abdul Muthaleef
				133/1C	Private	Wet	2745	M..N.Mohamed RabeeKh S/oNoormohamed
				133/2	Private	Wet	2690	Veerappan S/o. Maruthamuthu
				133/3	Private	Dry	12	1. Ramarathina Nayakkar
								2. Dhakshinamoorthy Nayagar
								3.Mohamed Yusuf
				134/7A	Private	Wet	400	Rethinam Chettiyar S/o. Ramasamy Chettiyar
				134/7B	Private	Wet	790	1. Sankar S/o.Veerasami
								2. Kaliyamoorthi S/o. Veerasami
				136	Private	Dry	260	1. Rajamani Ammal
								2. Kannuswami
								3. M.N. Saminatha Nayakkar
								4. Sundaramoorthi
								5.Venkadachalam
				140/1E	Private	Wet	1455	1. Arumugham S/o. Thangavel
								2. Haja sheriff S/o. Abdul Muthaleef
				141/1A	Private	Wet	835	Kalyani D/o. Rajappa

				141/1B	Private	Wet	350	Marimuthu S/o. Muthusami
				141/2	Private	Wet	485	Srinivasan S/o. Govindan
				141/3A	Private	Wet	1450	1. Arumugham S/o. Thangavel
								2. Haja Sheriff S/o. Abdul Muthaleef
				141/3B	Private	Wet	1040	Rokkiya Beeviammal
				141/4A	Private	Dry	1773	1. Rajappa
								2. Kathirvelu S/o. Duraisami
				141/4B	Private	Dry	1334	Srinivasan S/o. Govindan
				141/4C	Private	Dry	940	1. Murugaiyyan S/o. Saminathan
								2. Aananthayee S/o. Pechimuthu
				141/4D	Private	Dry	848	Nallammal W/o. Kamatchi
				141/4E	Private	Dry	930	Navaan Samban S/o. Mookkan Samban
				145/3	Private	Wet	450	Thangaiyyan S/o. Pichaikannu
				151/1	Private	Wet	1480	1. Rajappa
								2. Kathirvelu S/o. Duraiswami
				151/2A	Private	Wet	770	1. Arumugham S/o. Thangavel
								2) Haja Sheriff S/o. Abdul Muthaleef
				151/2B	Private	Wet	3	M.A Bhasheer Ahamed S/o. Abdul Wahab
				152/1A	Private	Wet	1335	Thangaiyyan S/o. Pichaikannu
				152/1B	Private	Wet	1385	1. Muraleetharan S/o. T.R. Aaravamudhan
								2. Lakshmi D/o. T.R. Aaravamudhan
								3. Kannan S/o. T.R. Aaravamudhan
				152/1C	Private	Wet	1360	1. Rengachari S/o. T.S. Ragavachariar

								2. Rajagopalan S/o T.S. Ragavachariar
								3. Saranathan S/o T.S.Ragavachariar
				152/2	Private	Wet	4350	Julaika Beevi Ammal W/o. Abdulkareem Rowthar
				153/1A	Private	Wet	1705	Selvaraj S/o. Ramaswami Mudaliyar
				153/1B	Private	Wet	2700	Srinivasan S/o. Govindan
				153/1C	Private	Wet	3180	Chellathammal W/oGovindan
				154/6A	Private	Wet	130	Selvaraj S/o. Ramasamy Mudaliyar
				154/6B1	Private	Wet	405	Selvaraj S/o. Ramasamy Mudaliyar
				154/6B2	Private	Wet	775	Srinivasan S/o. Govindan
				168/B2	Private	Dry	2300	1. Rengachari S/o.T.S. Ragavachariyar
								2. Aandal alias Vadhavalli W/o. T.S.Ragavachariar
								3. Rajagopal S/o T.S.Ragavachariar
								4. T.R.Sadagopan S/o.Rengaswami Iyer
								5. Saranathan S/o. T.S. Ragavachariyar
				169/1	Private	Wet	2750	Abimuktheeswarar Swami kovil
				170/1	Private	Wet	85	Sadiq Hussain
				312/1	Private	Wet	2430	Abimuktheeswarar Swami kovil
				312/2	Private	Wet	2765	Govindan S/o. Mookkan
				313/1	Private	Wet	3005	1. Srinivasan S/o. Govindan
								2. Govindan S/o. Mookkan
				313/2	Private	Wet	1425	Abimuktheeswarar Swami kovil
				1-2	Govt. Poramboke	Chinna Poigaiyaru	3600	Government of TamilNadu

				25/3	Govt. Poramboke	Vaikkal	680	Government of TamilNadu
				30	Govt. Poramboke	Kalpathai	1050	Government of TamilNadu
				35/2	Govt. Poramboke	Vandi pathai	150	Government of TamilNadu
				38/1	Govt. Poramboke	Poigaiyaru	2530	Government of TamilNadu
				40/13	Govt. Poramboke	Vaikkal	215	Government of TamilNadu
				141/5	Govt. Poramboke	Vaikkal	570	Government of TamilNadu
				145/4	Govt. Poramboke	Vaikkal	550	Government of TamilNadu
				153/2	Govt. Poramboke	Atroram	150	Government of TamilNadu
				168/B1	Govt. Poramboke	Poigaiyaru	5675	Government of TamilNadu
				168/C	Govt. Poramboke	Poigaiyaru	1505	Government of TamilNadu
				314	Govt. Poramboke	Panchayat Union Road	1075	Government of TamilNadu

[F. No. NHAI HQ/11013/01/2011-LA/Notif./PIU-Thanjavur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.